



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 172-2022/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, SEPTEMBER 22, 2022 (BHADRA 31, 1944 SAKA)

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

अधिसूचना

दिनांक 22 सितम्बर, 2022

संख्या 52/4/2021-5क1.—हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24) की धारा 5 तथा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग की अधिसूचना संख्या 52/4/2021-5क1 दिनांक 01 जुलाई, 2022 के प्रतिनिर्देश से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, नगरपालिका, आदमपुर, जिला हिसार की सीमाओं में से गांव आदमपुर के क्षेत्र को बाहर निकालते हैं तथा अब सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुसार होंगी, अर्थात:—

सीमाओं की अनुसूची

उत्तर:— खारा बरवाला हरबस्त के खसरा संख्या 82//1 के उत्तर पश्चिम कोने से शुरू होकर पूर्व की तरफ चलते हुए इसी हदबस्त के खसरा संख्या 79 के किला संख्या 5 के उत्तरी पूर्वी कोने तक, तत्पश्चात दक्षिण की तरफ मुरबा लाईन के साथ-साथ चलते हुए सेहदा तक, जहां खारा बरवाला, आदमपुर तथा सदलपुर की सीमा मिलती है, तत्पश्चात आदमपुर की उत्तरी सीमा के साथ-साथ पूर्व की तरफ चलते हुए सदलपुर-आदमपुर के रास्ते को पार करते हुए मुरबा संख्या 11 से किला संख्या 11 के उत्तर-पश्चिम कोने तक, तत्पश्चात उक्त रास्ते की पूर्वी लाईन के साथ-साथ दक्षिण पूर्व में गांव आदमपुर के उत्तरी सीमा के साथ-साथ पूर्व की तरफ मण्डी आदमपुर की पूर्वी सीमा तक जोकि खसरा संख्या 30//5/1 की भी पूर्व सीमा है।

पूर्व:— गांव आदमपुर की उत्तरी रेखा जहां मण्डी आदमपुर की पूर्वी सीमा से शुरू होकर दक्षिण की तरफ सीमा के साथ-साथ चलते हुए खसरा संख्या 53 के किला संख्या 19/2 के दक्षिण पूर्वी कोने तक।

दक्षिण:— गांव मण्डी आदमपुर के खसरा संख्या 53 के किला संख्या 19/2 को दक्षिणी पूर्वी कोने से शुरू होकर पश्चिम की तरफ चलते हुए खसरा संख्या 145 के किला संख्या 21 की उत्तरी पूर्वी कोने तक जोकि भादरा रोड़ की पश्चिम सीमा भी बनती है, तत्पश्चात उक्त कोने से भादरा रोड़ के पश्चिमी लाइन के साथ-साथ दक्षिण की तरफ चलते हुए खसरा संख्या 145 के किला संख्या 21 की दक्षिण पूर्वी कोने तक। तत्पश्चात इस कोने से पश्चिम की तरफ चलते हुए खारा बरवाला हदबस्त के खसरा संख्या 245 के किला संख्या 21 के दक्षिणी पश्चिम कोने तक जोकि खारा बरवाला से मोहब्बतपुर के रास्ते पर मिलता है।

पश्चिम:— खारा बरवाला के खसरा संख्या 245 के किला संख्या 21 के दक्षिण पश्चिम कोने पूर्वी लाईन के साथ-साथ उत्तर की तरफ चलते हुए खारा बरवाला हदबस्त खसरा संख्या 200 के किला संख्या 1 के उत्तर-पश्चिम कोने तक। तत्पश्चात उक्त

कोने से पश्चिम की तरफ चलते हुए खसरा संख्या 184 के किला संख्या 21 के दक्षिण-पश्चिमी कोने तक, तत्पश्चात खारा बरवाला के उक्त कोने से उत्तर की तरफ चलते हुए खसरा संख्या 156 के किला संख्या 1 के उत्तर पश्चिमी कोने तक, तत्पश्चात उक्त कोने से पूर्व की तरफ चलते हुए खसरा संख्या 154 के किला संख्या 1 के उत्तर-पश्चिमी कोने तक। तत्पश्चात उक्त कोने के उत्तर की तरफ चलते हुए खसरा संख्या 110 के किला संख्या 1 के उत्तर-पश्चिमी कोने तक जोकि खारा बरवाला में जाने वाले रास्ते का भी कोना है। तत्पश्चात इस कोने से आगे बढ़ते हुए पूर्व की तरफ खसरा संख्या 113 / 1 (खारा बरवाला) के उत्तर-पश्चिम कोने तक तत्पश्चात उक्त कोने से उत्तर की तरफ चलते हुए खसरा संख्या 82 के किला संख्या 1 के उत्तर पश्चिम कोना तक जो कि प्रस्तावित नगर पालिका की सीमा का शुरुआती बिन्दु है।

अरुण गुप्ता,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT

Notification

The 22nd September, 2022

No. 52/4/2021-5C1.- In exercise of the powers conferred under sections 5 and 6 of the Haryana Municipal Act, 1973 (24 of 1973), and with reference to Haryana Government, Urban Local Bodies Department, notification No. 52/4/2021-5C1 dated the 1st July, 2022, the Governor of Haryana hereby exclude the area of village Adampur from the boundaries of Municipal Committee Adampur, District Hisar and the boundaries now are as specified in the Schedule given below, namely:-

Schedule of Boundaries

North:- Starting from Khara Barwala HB No. Khasra n.82//1 north west corner toward east up to Khasra n. 79//5 north east corner and then towards south along with Murba line upto Sahhada where Khara Barwala Adampur and Sadalpur boundary meets there after north boundary Adampur village towards east upto village Sadalpur boundary crossing Rasta along with Khasra 11//11 north east corner and then along with Rasta's eastern line and village Adampur north line towards eastern boundary of Adampur up to Khasra No. 30//5/1 where northern boundary exist.

East:- Village Adampur north line where Adampur Mandi eastern line starts and going towards south with boundary where Khasra No. 53//19/2 south eastern corner.

South:- Village Mandi Adampur Khasra No. 53//19/2 south east corner towards west up to Khasra No. 145//21 North East corner on Bhadra Road's western line, then from this corner going towards south with Bhadra Road west line up to Khasra No. 145//21 south east corner. Than from this corner Village Khara Barwala's Khasra No. 245//21 south west corner meets on Rasta of Khara Barwala- Mohabatpur.

West:- Khara Barwala Khasra No. 245//21 south west corner on Rasta on eastern line towards north Khara Barwala Khasra No. 200//1 north west corner and then from this corners towards west up to Khasra No. 184//21 south west corner. Proceeding this towards north Khasra No. 156//1 north west corner and going towards east Khasra No. 154//1 north west corner from that point towards north up to Khasra no. 110//1 Khara Barwala north west corner situated (Khara Barwala Rasta's corner is also included). Proceeding from this corner going towards east Khasra No. 113//1 (Khara Barwala) north west corner, thereafter from this corner Khasra No. 82//1 (Khara Barwala) North west corner which is proposed Municipal Committee starting stating point.

ARUN GUPTA,
Principal Secretary to Government, Haryana,
Urban Local Bodies Department.